



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17042025-262483
CG-DL-E-17042025-262483

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1694]

नई दिल्ली मंगलवार, अप्रैल 15, 2025/ चैत्र 25, 1947

No. 1694]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 15, 2025/ CHAITRA 25, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2025

सं. 04 / 2025-26

विषय: आइटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय . 27 की आयात नीतिगत शर्त संख्या 07 (i) में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 1725(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 (समय-समय पर यथा संशोधित), के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 04.10.2023 की अधिसूचना सं. 34 / 2023 द्वारा अधिसूचित आइटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय-27 की आयात नीतिगत शर्त संख्या 07 (i) को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित करती है:

मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआइएमएस) में आयातकों द्वारा मर्चों के आयात हेतु ऑनलाइन प्रणाली में अग्रिम सूचना प्रस्तुत करना और सीआइएमएस मूल्य पर न्यूनतम 500/- रुपये और अधिकतम 1 लाख रुपये के अधीन प्रति हजार 1 रुपये के पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अपेक्षित होगा।	कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआइएमएस) में आयातकों द्वारा मर्चों के आयात हेतु ऑनलाइन प्रणाली में परिशिष्ट 2T के अनुसार अग्रिम सूचना प्रस्तुत करना और पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

अधिसूचना का प्रभाव:

कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआइएमएस) के अंतर्गत स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए पंजीकरण शुल्क परिशिष्ट 2T में उल्लिखित शुल्क के पैमाने के अधीन होगा।

इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं.एम-4708 / 1902 / 2002 / पीसी-2(ए) / पार्ट-I / ई-33668]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, 15th April, 2025

No. 04 /2025-26

Subject: Amendment in Import Policy Condition No.07 (i) of Chapter - 27 of Schedule-I (Import Policy) of ITC (HS), 2022 reg.

S.O. 1725(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 9 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023 (as amended from time to time), the Central Government hereby amends the Import Policy Condition No.07 (i) of Chapter - 27 of Schedule-I (Import Policy) of ITC (HS), 2022 notified vide Notification No. 34/2023 dated 04.10.2023, with immediate effect, as under:

Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
The Coal Import Monitoring System (CIMS) shall require importers to submit advance information in an online system for import of items and obtain an Automatic Registration Number by paying registration fee of Rs. 1 per thousand, subject to minimum of Rs. 500/- and maximum of Rs. 1 Lakh, on CIF value.	The Coal Import Monitoring System (CIMS) shall require importers to submit advance information in an online system for import of items and obtain an Automatic Registration Number by paying registration fee as per Appendix 2K

Effect of the Notification:

The Registration Fee for obtaining Automatic Registration Number under Coal Import Monitoring System (CIMS) will be subject to the scale of fee mentioned in Appendix 2K.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F.No.M-4708/1902/2002/PC-2(A)/Part-I/E-33668]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- Officio Addl. Secy.